



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 चैत्र 1932 (श0)
(सं0 पटना 210) पटना, मंगलवार, 30 मार्च 2010

सं0 5/सह./फ.बी.-44/09—1252

सहकारिता विभाग

संकल्प

18 मार्च 2010

विषय : रब्बी 2009-10 हेतु पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत घोषणा पत्र आदि जमा करने की निर्धारित अवधि का विस्तार।

भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 13011/02/2007 क्रेडिट II दिनांक 11 सितम्बर 2009 तथा एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि. पटना के पत्रांक 611 दिनांक 11 सितम्बर 2009/पत्रांक 1023, दिनांक 14 अक्टूबर 2009 एवं पत्रांक 1053, दिनांक 29 अक्टूबर 2009 तथा आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड (सामान्य बीमा), पटना के पत्रांक 0672353/07, दिनांक 12 अक्टूबर 2009 एवं पत्रांक-0672405/07, दिनांक 27 अक्टूबर 2009 के आलोक में राज्य सरकार ने रब्बी 2009-10 के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के कतिपय जिलों में लागू करने हेतु संकल्प संख्या 4952 दिनांक 3 अक्टूबर 2009 निर्गत किया था। बीमा के लिए निर्गत एतद् सम्बंधी संकल्प में ऋणी कृषकों के घोषणा पत्र आदि को बैंको द्वारा दिनांक 2 मार्च 2010 तक बीमा कंपनी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना था।

2. एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि., पटना के पत्रांक 2001 दिनांक 9 मार्च 2010 के आलोक में ऋणी कृषकों के बीमा से सम्बंधित घोषणापत्र एवं प्रीमियम की राशि आदि को बीमा कंपनी के यहाँ जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 2 मार्च 2010 को दिनांक 25 मार्च 2010 तक इस शर्त के साथ विस्तारित किया जाता है कि सम्बंधित बैंक बीमा प्रीमियम का चेक/ड्राफ्ट दिनांक 2 मार्च 2010 तक की अवधि का ही जमा करेंगे।

3. संकल्प संख्या 4952, दिनांक 3 अक्टूबर 2009 की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लियान कुंगा,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 210-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>